



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1931 (श0)
(सं0 पटना 277) पटना, बुधवार, 17 जून 2009

कार्यालय मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश
4 जून 2009

सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0 - 40/2007-501—जिला अनुकम्पा समिति, बिहारशरीफ के ज्ञापांक 1045, दिनांक 17 जून, 2008 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 यदु साव, आदेशपाल, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के आश्रित पुत्र श्री विकास कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के अन्तर्गत रिक्त लेख लिपिक के पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वर्ग-3 श्रेणी पद पर वेतनमान रु0 3050-4950 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

2. श्री विकास कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व0 यदू साव के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा द्वारा करा लिया जायेगा।

4. कार्मिक पद प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे उक्त पदाधिकारी श्री कुमार को सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त हाने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 277-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>